



इग्नू क्षेत्रीय केंद्र देहरादून

(IGNOU REGIONAL CENTRE DEHRADUN)

नोटिस (28.06.2020)

सत्र जुलाई 2020 हेतु पुनःपंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन संबंधित निर्देश (Important instruction about Online Re-registration for July 2020 Session)

विश्वविद्यालय के पुनःपंजीकरण पोर्टल (<https://onlinerr.ignou.ac.in/>) पर शिक्षार्थी द्वितीय/तृतीय/... वर्ष या सेमेस्टर में पुनःपंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं इसके लिए ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। जुलाई 2020 सत्र हेतु पुनःपंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है जो 30 जून 2020 तक (या विश्वविद्यालय के निर्णयानुसार अंतिम तिथि बढ़ाये जाने पर अगली तिथि तक) चलती रहेगी। नोट करें कि प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा से पूर्व ही आपको द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर हेतु पुनःपंजीकरण करना होता है, तभी आप जुलाई 2020 से द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर में पंजीकृत हो पाएंगे।

अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के शिक्षार्थियों के लिए BA, BCOM, BSC, BSW, BTS, BCA (जिन्होंने जुलाई 2015 या उसके बाद के सत्रों में इन कार्यक्रमों में प्रवेश लिया है) एवं BAG, BCOMG, BSCG कार्यक्रमों में निशुल्क पुनःपंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे शिक्षार्थियों को भी उपरोक्त पोर्टल द्वारा ही पुनःपंजीकरण हेतु निशुल्क ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एससी / एसटी शिक्षार्थी जिन्हें प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय फीस में छूट दी गई थी, वे पुनः पंजीकरण में छूट के पात्र हैं, बशर्ते कि :

1. वे बेरोजगार हों। उन्हें पोर्टल पर रोजगार की अपनी वर्तमान स्थिति की घोषणा करनी होगी।
2. उन्हें किसी अन्य स्रोत से कोई छात्रवृत्ति / वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। उन्हें इसे पोर्टल पर निर्दिष्ट करना होगा।
3. वे शुल्क मुक्ति की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपनी सहमति देते हैं।

नोट:

1. जिन शिक्षार्थियों ने जुलाई 2019 सत्र में वार्षिक प्रणाली वाले डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश लिया है एवं जिन शिक्षार्थियों ने जनवरी 2020 सत्र में 6 मासिक सेमेस्टर आधारित कार्यक्रमों (e.g. BCA, MCA, PGDCA, MP, MPB, PGDHRM, PGDMM, PGDOM, PGDFM, etc.) में प्रवेश लिया है वे जुलाई 2020 सत्र हेतु पुनः पंजीकरण कर सकते हैं। BAG, BCOMG व BSCG वाले शिक्षार्थी वार्षिक प्रणाली (Annual Pattern) के अनुसार ही पुनःपंजीकरण करेंगे।
2. पुनः पंजीकरण करने में किसी परेशानी की स्थिति में आप फ़ोन नंबर 9045062731 को व्हाट्सएप्प द्वारा "Help for RR" सन्देश भेजें। आपने यदि अभी तक इग्नू क्षेत्रीय केंद्र देहरादून का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप शीघ्र ही अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम (TELEGRAM) ऐप डाउनलोड व इनस्टॉल करें। इसके बाद नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके "इग्नू देहरादून फॉर स्टूडेंट" ग्रुप ज्वाइन कर लें। इस ग्रुप पर हम पुनःपंजीकरण सहित सभी आवश्यक निर्देश प्रतिदिन आपको उपलब्ध कराते हैं:

<https://t.me/joinchat/TO Cxhpb351Pjk1tyPZjFQ>

शुभकामनाओं सहित

क्षेत्रीय निदेशक
इग्नू क्षेत्रीय केंद्र देहरादून